

## भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रेस विज्ञप्ति

**पटना हवाईअड्डे द्वारा 15 लाख से अधिक वैक्सीन की आपूर्ति मुहैया करना ।**

नई दिल्ली, 21 जून 2021: भाविप्रा के जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना एवं इसके हितधारक 24 X 7 घंटे चिकित्सा उपकरणों और सामग्रियों की निर्बाध आपूर्ति करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

पटना हवाई अड्डे द्वारा विभिन्न एयरलाइनों के माध्यम से 10 जून 2021 तक 15.5 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की शीशियां (वायल्स) पहुंचाई जा चुकी है। देश में आए ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए, 9 अप्रैल 2021 से भारतीय वायु सेना के विमानों जैसे सी17, सी130J, ए एन 32 द्वारा 718 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन भरे हुए 705 सिलेंडर ले जाए गए।

इसके अतिरिक्त, पटना हवाईअड्डा यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के निर्देशानुसार कोविड 19 संबंधित सभी दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल का अनुपालन भी कर रहा है। हवाई अड्डे के कर्मचारी सभी यात्रियों, हितधारकों, आगंतुकों, कर्मचारियों आदि से कोविड संबंधी उचित व्यवहार का अनुपालन करने और भीड़ को कम करने के लिए अलग-अलग समय का पालन करने के लिए लगातार अनुरोध करते हैं। कोविड संबंधी उचित व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हवाईअड्डा टर्मिनल पर कई इलेक्ट्रॉनिक और स्थायी डिस्प्ले के माध्यम से निर्देश भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

बिहार सरकार के सहयोग और समर्थन से, भाविप्रा कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए हवाई अड्डे पर सभी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कोविड टीकाकरण शिविर का भी आयोजन किया गया।

निगमित संचार निदेशालय द्वारा जारी  
विवरण के लिए कृपया संपर्क करें, महाप्रबंधक (नि.सं)

011-24622787

प्रेस विज्ञप्ति संख्या 17/2021-22

